



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2012 (भाद्रपद 10, 1934)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2012 (BHADRA 10, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय

उद्घोषा

भुवनेश्वर, दिनांक 9 अगस्त 2012

सं. प्रशा. (सा.सा.क्षे.ले.)-17-2 (लेपअ) भाग-VII/1383--ज्ञापन
सं. प्रशा. (सा.सा.क्षे.ले.)-17-2 (लेपअ)/भाग-VII/1262 दि. 31.07.2012
द्वारा सूचित का.आ.ग. 492 दि. 31.07.2012 के अनुपालन में निम्नलिखित
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के
आगे दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं
सादृश्य वेतन ग्रेड रु. 5,400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में
कार्यभार ग्रहण किया है :--

क्र. सं.	नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	प्रशान्त कुमार धल-I	01.08.2012 (पूर्वाह्न)
2.	रत्नाकर सामल	01.08.2012 (पूर्वाह्न)
3.	रंकनाथ मल्लिक	01.08.2012 (पूर्वाह्न)

एस. एस. दास
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 अगस्त 2012

सं. प्रशासन-V/9-86/VI--प्रधान महालेखाकार (ले व ह) ने इस
कार्यालय के निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को ग्रेड वेतन रु. 5,400/-

सहित रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 में वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में हर एक के नाम के सामने दर्शाए दिनांक से नियुक्त किया है :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री/श्रीमती		
1.	राजलक्ष्मी एन.	02.01.2012 पूर्वाह्न
2.	पद्मादेवी के.	02.01.2012 पूर्वाह्न
3.	गीतादेवी सी.	02.01.2012 पूर्वाह्न
4.	पार्वती वी.	02.01.2012 पूर्वाह्न
5.	गीता आर.	02.01.2012 पूर्वाह्न
6.	जयतीश्वरी सी.	02.01.2012 पूर्वाह्न
7.	लीला पी. सी.	02.01.2012 पूर्वाह्न
8.	वेणुगोपाल एम. जी.	02.01.2012 पूर्वाह्न
9.	एलिज़बेथ माम्मन	02.01.2012 पूर्वाह्न

एस. विश्वनाथन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन-V/9-86/VI--प्रधान महालेखाकार (ले व ह) ने इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-3 में लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में हर एक के नाम के सामने दर्शाए दिनांक से नियुक्त किया है :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
श्री/श्रीमती		
1.	सुशीलाकुमारी अम्मा पी.	01.04.2011 पूर्वाह्न
2.	कृष्णन सी. टी.	04.04.2011 पूर्वाह्न
3.	राधा के. (सं. 6)	02.05.2011 पूर्वाह्न
4.	मंजू टी. वी.	06.07.2011 पूर्वाह्न
5.	श्रीलता आर.	01.07.2011 पूर्वाह्न
6.	शशिधरण नायर बी.	19.07.2011 पूर्वाह्न
7.	शोभा आर.	01.09.2011 पूर्वाह्न
8.	श्रीहर्षन के. के.	14.09.2011 पूर्वाह्न
9.	अरविंदाक्षन टी.	03.10.2011 पूर्वाह्न
10.	जयराम बी.	21.10.2011 अपराह्न

1	2	3
11.	संतोष कुमार पी. एस.	01.12.2011 पूर्वाह्न
12.	बेबी राजन	02.01.2012 पूर्वाह्न
13.	सुरेश पी. डी.	01.02.2012 पूर्वाह्न
14.	चंद्र कुमारी ए.	01.03.2012 पूर्वाह्न
15.	लक्ष्मी सी.	02.04.2012 पूर्वाह्न
16.	पद्मकुमारी अम्मा टी. के.	11.06.2012 पूर्वाह्न
17.	रेणुका एन.	27.04.2012 पूर्वाह्न
18.	जोसफ टी. के.	01.05.2012 पूर्वाह्न
19.	रेचल मत्ताई	01.06.2012 पूर्वाह्न
20.	राजेंद्रन बी (सं. 2)	04.06.2012 अपराह्न

एस. विश्वनाथन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन-V/9-86/VI--प्रधान महालेखाकार (ले व ह) ने इस कार्यालय के निम्नलिखित अस्थायी पदासीन सहायक लेखा अधिकारियों को ग्रेड वेतन रु. 4,800/- सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में सहायक लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में हर एक के नाम के सामने दर्शाए दिनांक से नियमित किया है :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
श्री/श्रीमती		
1.	श्रीमल कुमार राज पी. आर.	02.05.2011 पूर्वाह्न
2.	राजलक्ष्मी बी. (सं. 2)	01.06.2011 पूर्वाह्न
3.	नीनेट विन्सेंट	04.07.2011 पूर्वाह्न
4.	गीतांजली पी. एन.	04.07.2011 पूर्वाह्न
5.	लता एस.	04.07.2011 पूर्वाह्न
6.	जयरामन वी.	04.07.2011 पूर्वाह्न
7.	वर्गीस पी. टी.	19.07.2011 पूर्वाह्न
8.	अनिलकुमार एस.	01.08.2011 पूर्वाह्न
9.	मुरलीधरन वी. आर.	01.09.2011 पूर्वाह्न
10.	राजन पी.	03.10.2011 पूर्वाह्न
11.	रामचंद्रन ए. ए.	03.10.2011 पूर्वाह्न
12.	बालकृष्णन पी. (सं. 1)	01.11.2011 पूर्वाह्न
13.	जय कुमार भास्करन	01.11.2011 पूर्वाह्न

1	2	3
14.	हस्सन टी. ए.	01.12.2011 पूर्वाह्न
15.	सीसर के. अब्राहम	01.12.2011 पूर्वाह्न
16.	योगेश ए.	02.01.2012 पूर्वाह्न
17.	राजेश सी.	01.02.2012 पूर्वाह्न
18.	प्रमोदन के.	01.03.2012 पूर्वाह्न
19.	प्रभाकरन वी. पी.	29.03.2012 पूर्वाह्न
20.	रघु के.	01.05.2012 पूर्वाह्न
21.	तुलसीधरन सी. (सं. 2)	01.05.2012 पूर्वाह्न
22.	जॉर्ज के. एक्स	01.05.2012 पूर्वाह्न
23.	मोहनदास एम.	01.06.2012 पूर्वाह्न
24.	राधा के. एन.	01.06.2012 पूर्वाह्न
25.	राजीव पी.	01.06.2012 पूर्वाह्न
26.	सेवियर एम. जे.	11.06.2012 पूर्वाह्न
27.	कला एन.	11.06.2012 पूर्वाह्न

एस. विश्वनाथन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 17 अगस्त 2012

सं. का.स्था. (ह व रो)/ई-IV पें/000112--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :--

नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
श्री एम. गणपति अय्यर	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.07.2012 अपराह्न (अधिवर्षिता)

एस. विश्वनाथन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (सा. एवं सा.क्षे.लेप.)

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. प्रशा. I/पदो./8-132/2012-2013/54--प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.लेप.) आन्ध्र प्रदेश ने सहर्ष इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

के संवर्ग में पदोन्नत किया है जो कि उनके नाम के आगे दी गई दिनांक से प्रभावी होगा :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं. दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	पी. रवी कुमार-1	155/31.01.2012	02.01.2012
2.	के. जयश्री	42/22.06.2012	22.06.2012
3.	डी. रामबाबू	42/22.06.2012	22.06.2012
4.	जी. कुमार बाबू	42/22.06.2012	25.06.2012
5.	एस. बी. विजय शेखर	42/22.06.2012	22.06.2012

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

अधिकारियों को भारत सरकार के दिनांक 13.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अंदर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

अनीता बालकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा. I/प्रोन्नति/5-4/55--महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित व. लेखापरीक्षकों को रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 के स्थानापन्न स. लेखापरीक्षक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, जो कि उनके नाम के आगे दी हुई तिथि से प्रभावी होगा :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	के. उमा सुन्दर वारा प्रसाद	13/26.04.2012	26.04.2012
2.	ए. श्रीधर	13/26.04.2012	26.04.2012
3.	बी. वी. सांता राव	13/26.04.2012	26.04.2012
4.	जे. सुधीर कुमार	13/26.04.2012	26.04.2012
5.	डी. नागराजू	13/26.04.2012	26.04.2012
6.	वी. सुकुमार पिल्लै	13/26.04.2012	26.04.2012
7.	मो. अब्दुल इलियास	13/26.04.2012	26.04.2012
8.	डी. ओबैया	13/26.04.2012	26.04.2012
9.	जे. रजनी	13/26.04.2012	26.04.2012

1	2	3	4
10.	रामकृष्ण डलॉ	13/26.04.2012	26.04.2012
11.	बी. वी. एस. डी. साई प्रसाद	13/26.04.2012	26.04.2012
12.	डी. प्रभुदयाल	13/26.04.2012	26.04.2012
13.	बी. बाला किशन	13/26.04.2012	26.04.2012
14.	बी. प्रवीण कुमार	13/26.04.2012	26.04.2012
15.	एम. श्रीनिवास	13/26.04.2012	26.04.2012
16.	आर. शारदा यादव	13/26.04.2012	26.04.2012
17.	एन. बालाजी सिंह	13/26.04.2012	27.04.2012
18.	बी. नागालक्ष्मैया	13/26.04.2012	26.04.2012

क्रम सं. 1 से 14 के कर्मचारी वेतन के पुनः निर्धारण के योग्य नहीं हैं क्योंकि डीओपीटी के दिनांक 19.05.2010 के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008/स्था.(डी) के अनुसार एमएसीपी योजना के तहत उन्हें पहले ही रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है। किन्तु ग्रेड पे का जो अन्तर है वो उपरोक्त लिखित का.ज्ञा. के तहत दिया जाएगा।

क्रम सं. 15 से 18 तक के कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांक 26.09.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-1/80-स्था.(पी.1) और दिनांक 08.02.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 13/26/82-स्था.(पी.1) के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है। वे दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

अनीता बालकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

सं. प्रशा. I/प्रोन्नति/5-4/2012-2013/66--प्रतिनियुक्ति पर लिए गए निम्नलिखित कर्मचारियों को इस कार्यालय में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के समूह 'ख' के अन्तर्गत पद पर इनके नाम के सामने दी गई तिथि के प्रभाव से अवशोषित किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	अवशोषण की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एस. कोटेश्वर राव	01.05.2012
2.	जी. एन. वी. सत्यनारायणा	01.05.2012
3.	आर. वी. प्रसाद	01.05.2012
4.	पी. श्रीनिवास राव	01.05.2012
5.	टी. आर. वेंकटेश्वर	01.05.2012

1	2	3
6.	बी. अधोकशाजा	01.05.2012
7.	एल. एस. वी. राव	01.05.2012
8.	वी. सतीश	01.05.2012
9.	एन. पार्थ	01.05.2012
10.	जेड. ए. दारा	01.05.2012
11.	बी. के. एम. आर. पटनायक	01.05.2012
12.	टी. वी. रमेश	01.05.2012
13.	एम. धर्मजयनेयुलु	01.05.2012
14.	एस. एम. सत्यवेदना	01.05.2012
15.	के. एस. शेषाद्री	01.05.2012
16.	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	02.05.2012
17.	यू. के. एस. श्रीनिवास मूर्ति	02.05.2012
18.	सी. रामकृष्ण प्रसाद	02.05.2012
19.	जी. वी. अंजनेय नरेश	02.05.2012
20.	वी. सुधा	02.05.2012
21.	बीएच. वी. रमना मूर्ति	02.05.2012
22.	आई. वी. सुब्रामण्यम	02.05.2012
23.	शेख शाहुल रशीद	02.05.2012
24.	जी. कृष्णा प्रिया	02.05.2012
25.	एन. श्रीनिवास	02.05.2012
26.	सी. एच. गीतांजली	02.05.2012
27.	वाई नवरत्न कुमार	02.05.2012

अनीता बालकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

दिनांक 17 जुलाई 2012

सं. प्रशा. I/प्रोन्नति/एफ.60/2012-2013--प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को रु. 5,400/- के ग्रेड पे के साथ रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्य करने हेतु

प्रोन्नत किया है। प्रोन्नति उनके नामों के सामने दी गयी तिथि से प्रभावी होगी :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं./दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	सी.एच. लक्ष्मी नरसिम्हा राव	153/31.01.2012	01.02.2012
2.	एल. पदमावती	43/27.06.2012	28.06.2012
3.	एम. विजय आनंद	43/27.06.2012	28.06.2012
4.	एस. कृष्ण मोहन राव	43/27.06.2012	27.06.2012
5.	एम. एस. कुमार देवन	43/27.06.2012	29.06.2012

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

क्रम सं. 01, 02 और 04 के कर्मचारी वेतन के पुनः निर्धारण के योग्य नहीं हैं क्योंकि डीओपीटी के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008/स्था.(डी) दिनांक 19.05.2010 के अनुसार एमएसीपी के तहत उन्हें पहले ही वित्तीय उन्नयन दिया जा चुका है।

क्रम सं. 03 से 05 तक के कर्मचारी/कर्मचारियों को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं.-1/1/80-1सी दिनांक 13.09.2008 की शर्तों के तहत अपने प्रोन्नति के दिन से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण के विकल्प देना चाहिये।

अनीता बालाकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. प्रशा. I/पदो./8-132/एफ.59/2012-2013/67--प्रधान महालेखाकार (सा.एवं.सा.क्षे.ले.प.), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ने सहर्ष निम्नलिखित व. लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है :--

क्र. सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	सी. एच. साराबोंडू राजु	31.05.2012
2.	एन. मधुसुधन	30.06.2012
3.	एन. माचेरला	30.06.2012
4.	मेरिगा शास्त्री	30.06.2012
5.	जी. किरण कुमारी	30.06.2012

अनीता बालाकृष्णा
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 14 अगस्त 2012

सं. 10327/एसपी/ए-32013/3-रसायनज्ञ (वरिष्ठ) 2005/19बी खंड-II--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित रसायनज्ञों को वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर इसी विभाग में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर प्रत्येक के नाम के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री जे. बी. घोष	30.05.2011 (पूर्वाह)
2.	श्री एस. के. मिश्रा	23.06.2011 (अपराह)
3.	श्री एस. एन. गिरहे	27.06.2011 (पूर्वाह)
4.	डॉ. डी. डी. उप्रेती	06.06.2011 (पूर्वाह)
5.	डॉ. (श्रीमती) सरिता सिंह	25.05.2011 (अपराह)
6.	श्री जयराज गुप्ता	31.05.2011 (पूर्वाह)
7.	डॉ. दिलीप कुमार बंधोपाध्याय	25.05.2011 (अपराह)
8.	डॉ. आर. पी. शर्मा	01.06.2011 (अपराह)
9.	डॉ. रफी अहमद	30.05.2011 (अपराह)
10.	श्री ओम स्वरूप	25.05.2011 (अपराह)
11.	डॉ. संजीव कुमार	29.08.2011 (पूर्वाह)
12.	श्रीमती एस. एन. जनबंधु	15.06.2011 (पूर्वाह)
13.	श्री यू. सी. गौतम	13.07.2011 (पूर्वाह)
14.	श्री जीवन लाल मीणा	08.08.2011 (पूर्वाह)
15.	श्री ओ. पी. मीणा	04.08.2011 (पूर्वाह)
16.	श्री बी. डी. लाल	25.04.2012 (अपराह)
17.	श्रीमती चंद्रिमा राय	25.04.2012 (पूर्वाह)
18.	डॉ. प्रदीप त्रिवेदी	25.04.2012 (पूर्वाह)

एम. सी. साहा
सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-1, एवं
नोडल अधिकारी, रसायनिकी धारा
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 9 अगस्त 2012

सं. 93/अधि./स्था.1A/6812--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पद दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए

गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. अशोक भौमिक	वै.अ./जी	31.07.2012 (अप.)	त्यागपत्र-
2.	डॉ. श्रीमती सुधा प्रेमचंद्रन	वै.अ./डी	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
3.	श्री धीरेन्द्र मोहन	वै.अ./जी	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
4.	डॉ. सी.जी. शिवन पिल्लई	वै.अ./एच	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
5.	श्री मुकुंद सखाराम बेल्हे	वै.अ./एफ	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
6.	डॉ. (श्रीमती) नीरा चड्डा (पीटी)	वै.अ./ई	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
7.	श्रीमती पद्मावति भरतकुमार पाटिल	वै.अ./डी	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
8.	श्री उल्हास शंकर कोलते	वै.अ./एच	31.07.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
9.	श्री विनय कुमार	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.07.2012 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
10.	श्री पी.के. नेमा	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.07.2012 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति

एस.जी. मार्कण्डेय
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 9 अगस्त 2012

सं. क्रभनि/07020/भर्ती/12209--राष्ट्रपति महोदय, श्री आर. विजय कुमार, सहायक भंडार अधिकारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-], में भंडार एकक, एएमडीईआर, हैदराबाद को भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में, भंडार एकक, भापासं, मणुगुरु में दिनांक 25 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज
प्रशासनिक अधिकारी-III

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 अगस्त 2012

सं. कंर/560(5)/एफटीई/2011/19280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	220491	मैसर्स एएलईएफ सिस्टम्स इंडीग्रेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	073988	मैसर्स अल-फलाह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
3.	065675	मैसर्स एलपाइन लेदर प्राईवेट लिमिटेड
4.	128853	मैसर्स एएमजे इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	032524	मैसर्स अमरित ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
6.	163971	मैसर्स एएमएस एकाउस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	038338	मैसर्स एवाईएन एण्ड जगदबर्ग एक्सेसरिज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	169278	मैसर्स एजोरिम दिल्ली कन्सल्टिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	129699	मैसर्स बी. जे. बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
10.	148900	मैसर्स बॉसटेक ड्रिलिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
11.	198251	मैसर्स ब्रेन पॉवर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	164280	मैसर्स सी.आर. फाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	210726	मैसर्स सी.ए. डेल्टा इमीग्रेशन कन्सल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
14.	237160	मैसर्स सेन्टर फॉर स्ट्रोक एण्ड सेरेब्रल पैल्सी प्राईवेट लिमिटेड
15.	217138	मैसर्स सिटी प्रिविलेज कार्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	189206	मैसर्स दिगविजय एग्रो सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	175312	मैसर्स डॉमिनिक लेराय डिज़ाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	224783	मैसर्स डीएसएस इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	147656	मैसर्स एसपी रिसोर्सेज एण्ड मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	012682	मैसर्स फतेह प्रिंटिंग प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	184198	मैसर्स गढ़वाल सिक्कोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
22.	072552	मैसर्स गायत्री कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	138078	मैसर्स जी.एस. बिजनेस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	112068	मैसर्स एच.के.बी. वैरियशन्स सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
25.	203329	मैसर्स इन्जेन्स कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
26.	166339	मैसर्स आईएनटी इन्फोसिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
27.	037042	मैसर्स इन्वेन्टेक एप्लाइन्सेस (इण्डिया) कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
28.	176926	मैसर्स जायज होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	145133	मैसर्स जेसीएल लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	187901	मैसर्स नोवोल हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	166361	मैसर्स नोवोल आईटी सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
32.	127229	मैसर्स कोहिनूर ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
33.	200134	मैसर्स क्षेत्रीयास 4 सिक्वोरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
34.	113556	मैसर्स एम-2 एम चिप प्राईवेट लिमिटेड
35.	041299	मैसर्स मैको-विजन कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	230755	मैसर्स मास एण्ड जैकब मीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	223561	मैसर्स नारायण शरनम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	005933	मैसर्स न्यू डाईमेन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	149142	मैसर्स नेवेज प्रोपबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
40.	066037	मैसर्स निर्विघ्न एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	040343	मैसर्स एनओडीएम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
42.	042761	मैसर्स ओमेगा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
43.	181348	मैसर्स ऑप्टीमस एक्ज़िम प्राईवेट लिमिटेड
44.	087059	मैसर्स फिलिप मॉरिस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
45.	105840	मैसर्स प्राकृती वाटिका प्राईवेट लिमिटेड
46.	041420	मैसर्स प्राईम स्टाईल प्राईवेट लिमिटेड
47.	099569	मैसर्स आर.डी. शर्मा एण्ड एशोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	181212	मैसर्स आर.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
49.	179665	मैसर्स एस. सहायक एच.आर. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	097734	मैसर्स सात्विका मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
51.	140546	मैसर्स सैक्रेड वर्ल्ड मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
52.	184087	मैसर्स साई बेकर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
53.	061741	मैसर्स सत्य प्रकाश एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
54.	211478	मैसर्स सत्यपाल शिवकुमार इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
55.	178214	मैसर्स एस.बी. इन्फोसॉफ्ट राजपुरा प्राईवेट लिमिटेड
56.	205142	मैसर्स एसबीजी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	192985	मैसर्स सैलेक्ट ऑर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड
58.	170096	मैसर्स सरविया सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
59.	100008	मैसर्स शोभित ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
60.	127274	मैसर्स एसएम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
61.	042207	मैसर्स एसपी इन्टीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	035274	मैसर्स सूड सिक्वोरिटी एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
63.	150759	मैसर्स टेनजरीन कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	035589	मैसर्स टॉप सैनीफिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
65.	019176	मैसर्स ट्रॉन्स एशियन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	044371	मैसर्स अल्टीमेट टेलीसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	188734	मैसर्स वसन्त नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	184979	मैसर्स वाटिकाप्रेष एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
69.	170566	मैसर्स वीनस डाटा लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	164422	मैसर्स वर्चुअल एनीमेशन एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
71.	186834	मैसर्स यूलान क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड

पी.एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2012

सं. टीएस/एसएम/560(3)/176--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों के इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किये गये तो इन कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिये जाएंगे और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	29917	मैसर्स गलेन होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	30999	मैसर्स कुशा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
हिमाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 17 अगस्त 2012

सं. कर/एफटीई-2011/560(5)/882--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	2	3
1.	183758	मैसर्स हिरानंदानी इन्टरटेनमेन्ट चेन्नई सेज को-डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	163664	मैसर्स क्रोहम सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	186153	मैसर्स लोधा फार्मेटिक एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	167713	मैसर्स सिल्करूट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	167632	मैसर्स हाई-टैच डेवलपर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
6.	114620	मैसर्स इण्डिया लेज़र टॉकीज प्राईवेट लिमिटेड
7.	184146	मैसर्स रॉयल चेकिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	165634	मैसर्स कॉर्पिन सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	189841	मैसर्स सी.एस. कैलास लिगल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	163464	मैसर्स टॉक गियर प्राईवेट लिमिटेड
11.	180976	मैसर्स ऑरगॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	187894	मैसर्स फ्लेयर हॉस्पिटलीटी प्राईवेट लिमिटेड
13.	155911	मैसर्स एण्डर्स रिजल्ट प्राईवेट लिमिटेड
14.	181535	मैसर्स पीएनसी शिप्पी मीडिया लिमिटेड
15.	126484	मैसर्स सायबर साहिब्स कॉम लिमिटेड
16.	168269	मैसर्स सलदीप होटल्स एण्ड अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	138932	मैसर्स ट्रापीकाना सेल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
18.	205129	मैसर्स कासनी ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	177550	मैसर्स पितंबरा ट्रान्सलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	187101	मैसर्स संगम एग्रो एक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	189033	मैसर्स ब्लू व्हेल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
22.	127778	मैसर्स टीको वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
23.	103691	मैसर्स ताज टीक प्राईवेट लिमिटेड
24.	111814	मैसर्स अवनार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	172683	मैसर्स डिसन गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	200836	मैसर्स जानुस कोपोटल मैनेजमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	176268	मैसर्स डीसन टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
28.	183282	मैसर्स अर्बन इण्डिया रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	147352	मैसर्स मैजीक "एम" डायमण्डस प्राइवेट लिमिटेड
30.	174622	मैसर्स जिऑन टेलीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
31.	198133	मैसर्स फॉर्च्युन लैन्डस्केप्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	180886	मैसर्स एसपी-केप एविएशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
33.	183640	मैसर्स कारंजा पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
34.	175540	मैसर्स क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
35.	178292	मैसर्स पोर्टलसप्लस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	053753	मैसर्स बाच इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	179234	मैसर्स स्कायजिन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
38.	185162	मैसर्स पौना रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
39.	185947	मैसर्स संख्या केपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	173319	मैसर्स कुशीन रिटेल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
41.	042907	मैसर्स एसपी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	185180	मैसर्स विनस रसायन प्राईवेट लिमिटेड
43.	157957	मैसर्स बुलकेट्स एडवाइज़री सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
44.	064263	मैसर्स इंडो कलर फोटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
45.	187400	मैसर्स व्यापार टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	190871	मैसर्स सागरीका ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
47.	161218	मैसर्स समरिद्धी स्टॉक ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	181105	मैसर्स एन.आर. रिसायक्लिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
49.	029799	मैसर्स डी.के. रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	159222	मैसर्स सी.डी. रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	176228	मैसर्स पीपीपी टेलीसोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	185467	मैसर्स के-डाउ पेट्रोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	125746	मैसर्स विजक्राफ्ट इनफिनीटी वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड
54.	189661	मैसर्स क्लाइमेटिक प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
55.	187964	मैसर्स एम. एण्ड एम. थर्मोफार्मस प्राईवेट लिमिटेड	83.	124150	मैसर्स तुरंग कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
56.	199108	मैसर्स केकेटीसी मायनींग एण्ड कन्सट्रक्शन इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	84.	196363	मैसर्स अरेटे जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	116276	मैसर्स ओरसॉफ्ट कन्सल्टेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	85.	184360	मैसर्स प्रोटस मीडिया ऑप्टिमाइज्ड प्राईवेट लिमिटेड
58.	165775	मैसर्स नमुर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	86.	131914	मैसर्स गोल्ड रॉक इन्शुरन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	160548	मैसर्स शान्तिनाथ शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	104962	मैसर्स मायक्रो रिअल्टिज प्राईवेट लिमिटेड
60.	197787	मैसर्स ब्रिलारे वॉच प्राईवेट लिमिटेड	88.	172377	मैसर्स नेनेवा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	159858	मैसर्स हलुरकर कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	89.	169796	मैसर्स दिसन सिविल इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
62.	205103	मैसर्स आस्था जेम एण्ड ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड	90.	203780	मैसर्स ब्यूब्रीक वेल्थ मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
63.	184187	मैसर्स कोर पॉवर लिमिटेड	91.	204746	मैसर्स सेटको एनव्हायरमेंटल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
64.	197958	मैसर्स ब्यूटिफुल माइन्ड्स रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	92.	032330	मैसर्स कायल आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
65.	172403	मैसर्स रायजिंग ईलेक्टर (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड	93.	182548	मैसर्स लैण्ड टेक इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
66.	186555	मैसर्स सिप्स केयर प्राईवेट लिमिटेड	94.	182255	मैसर्स इफिन्ड वेब सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
67.	179399	मैसर्स आर डी चेकशीप प्राईवेट लिमिटेड	95.	161868	मैसर्स इसोटोप प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
68.	182615	मैसर्स दारक रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	96.	122727	मैसर्स बाधवानी गिताप्रकाश कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
69.	160337	मैसर्स जिनोम बायोफार्मा प्राईवेट लिमिटेड	97.	187614	मैसर्स परफेक्ट बायो-न्यूट्रिटीयल कल्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	182092	मैसर्स क्रेडिट इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड	98.	077393	मैसर्स बोधीना इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	201345	मैसर्स एनपीएफपी एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड	99.	209356	मैसर्स पुलस्त्या डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	154368	मैसर्स मां फाईनांशियल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	100.	038240	मैसर्स एडविन एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
73.	184481	मैसर्स एम्बीयन्स सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	101.	172284	मैसर्स बॉटीक एण्ड विन्टेज टू विलर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	172181	मैसर्स कॉपफिन एडवाइज़री सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	102.	193599	मैसर्स मैट्रीक्स नॉलेज प्राईवेट लिमिटेड
75.	161742	मैसर्स एस.आर. फायर प्रोटेक्शन एण्ड टेक्नीकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	103.	140811	मैसर्स एस नागडा टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	101941	मैसर्स प्रेमजी हरीदास एण्ड कम्पनी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	104.	053565	मैसर्स सुकृती एडवाइज़र प्राईवेट लिमिटेड
77.	033285	मैसर्स मेक्रो रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	105.	128047	मैसर्स वेस्ट साईड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	095625	मैसर्स पायोनीयर पोर्टफोलिओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	106.	184626	मैसर्स सागासियस रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	163326	मैसर्स प्रतीक टेक्सटाइल्स पार्क प्राईवेट लिमिटेड	107.	187283	मैसर्स ओमराज राजहंस बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	139412	मैसर्स इंदरजीत फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	108.	141633	मैसर्स सागर ओसीनिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
81.	177223	मैसर्स इगीगाफोन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	109.	188130	मैसर्स आईकॉन्सलटेक स्टुडीओ प्राईवेट लिमिटेड
82.	190597	मैसर्स वेनडीसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	148418	मैसर्स स्वामिनी ऑटोपार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			111.	150581	मैसर्स पकाले टोर्बेको प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
112.	132992	मैसर्स मायराईड एडवर्टाइजिंग मेडिया (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	139.	185434	मैसर्स अर दाल (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
113.	178869	मैसर्स रेड लायन डिझाईन प्राईवेट लिमिटेड	140.	208612	मैसर्स सेपीएन्ट मल्टी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
114.	127765	मैसर्स अँनट्रीक्स अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	172614	मैसर्स आभा फुड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
115.	186082	मैसर्स मिशनबीट्स इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड	142.	190058	मैसर्स मिशन ग्रीन इथेनाल प्राईवेट लिमिटेड
116.	160418	मैसर्स नैशनल ट्रेवलर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	143.	188124	मैसर्स ए 11 अपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	184353	मैसर्स सिम अँश प्राईवेट लिमिटेड	144.	156319	मैसर्स कनिष्क जेम्स एण्ड ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
118.	168216	मैसर्स मिकन्त्रा सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	145.	174101	मैसर्स प्लास्टीसिझर एण्ड पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	169470	मैसर्स ग्लोबल डेवलपमेंट कैपिटल मैनेजमेंट एडवर्वाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	146.	171022	मैसर्स ब्राइटलाइट्स स्पोर्ट्स सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
120.	207816	मैसर्स मेट्रीक्स इन्फ्राबुल्स प्राईवेट लिमिटेड	147.	182343	मैसर्स सोहम वेलनेस रिट्रीट एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	175708	मैसर्स डानोस मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	148.	152882	मैसर्स बॉम्बे ऑक्सीजन एसीटीलेन लिमिटेड
122.	187456	मैसर्स रिनज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	202403	मैसर्स जिओ अँकॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
123.	171374	मैसर्स श्री गिरिवर फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	150.	114340	मैसर्स अपोलो लॉजीस्टीक मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
124.	104024	मैसर्स नेत्रन इन्फॉर्मेशन एसेस प्राईवेट लिमिटेड	151.	211896	मैसर्स श्रीस ऑफशोर फेब्रिकेट्स एण्ड कंसलटेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
125.	175121	मैसर्स अमेया कैपिटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	152.	203828	मैसर्स हायडेल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
126.	186775	मैसर्स निर्माण कम्पोट प्राईवेट लिमिटेड	153.	071537	मैसर्स सनमार्क फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	176795	मैसर्स स्टारशॉप मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	154.	199735	मैसर्स ट्रेन्ज लॉजीस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
128.	088828	मैसर्स श्री देव आशीष इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	155.	154539	मैसर्स आरेन रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
129.	176266	मैसर्स डॉ. फेअरबर एण्ड स्वर्ज अकाउस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	156.	203915	मैसर्स बेलचैम्प एनर्जी वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	180689	मैसर्स सननाइट सोलर प्राईवेट लिमिटेड	157.	205989	मैसर्स वी कॉर्प रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
131.	185976	मैसर्स एसएचडी मैनेजमेंट कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	158.	208921	मैसर्स फेरवीड एग्रो ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
132.	170241	मैसर्स जेम्स रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड	159.	208718	मैसर्स अरडोर नट्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	053717	मैसर्स रिसी ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	160.	122551	मैसर्स वन-अप इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
134.	200414	मैसर्स आयन मेडिया प्राईवेट लिमिटेड	161.	045183	मैसर्स करोना एकजीम लिमिटेड
135.	194677	मैसर्स नम्रता इंडस्ट्रीयल पार्कस प्राईवेट लिमिटेड	162.	041205	मैसर्स संकल्प एडवर्टाइजिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
136.	204046	मैसर्स जगजीवन केशवजी ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	163.	175678	मैसर्स धनेरा ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
137.	132402	मैसर्स सीमतेश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	164.	213773	मैसर्स केबीजे होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	182785	मैसर्स रियल इस्टेट मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	165.	199592	मैसर्स सेन्ट्री अँसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
166.	202776	मैसर्स पीजेएस कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	195.	206482	मैसर्स कोजेन्ट नट्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	183830	मैसर्स मॉडर्न इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	196.	130322	मैसर्स मायराइड सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	173906	मैसर्स सिमप्राग ट्रेनिंग एण्ड कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	197.	072581	मैसर्स वेलवर्सड फाईनेश एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
169.	172348	मैसर्स आर्या ऑटोमोटिव्ह प्राईवेट लिमिटेड	198.	163923	मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइनेसस प्राईवेट लिमिटेड
170.	067225	मैसर्स इण्डियन मेडिया प्रोटेक्शन अगेन्स्ट कॉपीराइट थेफ्ट लिमिटेड	199.	166013	मैसर्स किंग्सज हेल्थ स्पा प्राईवेट लिमिटेड
171.	180486	मैसर्स मॉडर्न इण्डिया इलेक्ट्रीसिटी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	200.	148092	मैसर्स ग्लिनेट इन्फोसोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	041051	मैसर्स सिमी ईस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	201.	188103	मैसर्स ग्रेटशीप डॉफ सबसी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	166676	मैसर्स लोधा बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड	202.	049493	मैसर्स सोनी पार्लर प्राईवेट लिमिटेड
174.	167781	मैसर्स ट्रान्सफॉर्मर इण्डिया मैनैजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	203.	192557	मैसर्स क्रेडेंस इक्विटिज प्राईवेट लिमिटेड
175.	218855	मैसर्स इन्डेक्स ऑडिटोर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	204.	107762	मैसर्स प्राची ट्रेडवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
176.	197594	मैसर्स मैक्स ट्रेडजिंग प्राईवेट लिमिटेड	205.	131420	मैसर्स आरएस सॉफ्टवेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
177.	045141	मैसर्स बुट्टी कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	206.	033127	मैसर्स श्री वल्लभ ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	152844	मैसर्स बॉम्बे ऑक्सीजन गैसेस प्राईवेट लिमिटेड	207.	169841	मैसर्स क्रिस अँग्रो इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
179.	187965	मैसर्स केबिजे रॉयल कंसल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	208.	139762	मैसर्स विधि इम्पेक्स (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
180.	202318	मैसर्स पॉवरट्रैक ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	209.	137306	मैसर्स अनुपम लॉजीस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
181.	164929	मैसर्स युबीसी बिअरिंग्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	210.	045361	मैसर्स पीएनएच अलॉइज प्राईवेट लिमिटेड
182.	147153	मैसर्स सैंवी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	211.	156384	मैसर्स शो एस कॉन्टेन्ट व्हेन्चर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
183.	177412	मैसर्स रेड अर्थ क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	212.	169991	मैसर्स म्युझीअम होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	203643	मैसर्स बेलवॉइन पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	213.	188132	मैसर्स आयकंसल्ट टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
185.	203757	मैसर्स देवान एनर्जी वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड	214.	112963	मैसर्स करिश्मा अधेसिवज्ञ प्राईवेट लिमिटेड
186.	203742	मैसर्स पॅलेस गार्डन्स एनर्जी एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	215.	174915	मैसर्स पलाशीओ डे फ्लेमेन्को फूड एण्ड बेव्हेरेजेस प्राईवेट लिमिटेड
187.	101732	मैसर्स प्रशांत वेअरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	216.	180550	मैसर्स एएनएससॉफ्ट आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड
188.	165164	मैसर्स रूंगता डिलर्स प्राईवेट लिमिटेड	217.	145525	मैसर्स न्हावा सेवा सॉफ्टवेअर एण्ड लॉजीस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
189.	062897	मैसर्स प्रमुख क्रेडिट एण्ड कॅपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	218.	030608	मैसर्स भव्य गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	203761	मैसर्स विल्टन पॉवर प्राईवेट लिमिटेड	219.	203049	मैसर्स वरूण ग्लोबल अँग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
191.	192504	मैसर्स वरूण अर्थटेक लिमिटेड	220.	126132	मैसर्स थिंकर इंटरअैक्टीव्ह प्राईवेट लिमिटेड
192.	171641	मैसर्स मेसो रिअल्टीज प्राईवेट लिमिटेड	221.	138930	मैसर्स प्लैनेट ग्रिन इस्टेट एण्ड लॅण्डस्केप डेव्हलपर्स (मुंबई) प्राईवेट लिमिटेड
193.	059637	मैसर्स डिजिटल रेकॉर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	222.	157756	मैसर्स मावेरिक थिंकिंग एण्ड कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	087819	मैसर्स रिहा फार्मिंग लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
223.	150840	मैसर्स साईराम सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड	252.	175072	मैसर्स सोहन इन्फ्राट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
224.	177732	मैसर्स फनाटीक सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	253.	176871	मैसर्स सुबोध मर्कनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
225.	212751	मैसर्स एस के ऑनॉलॉग टेले सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	254.	206195	मैसर्स कोरे शोलर सिस्टिम लिमिटेड
226.	187608	मैसर्स अफेबल इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	176710	मैसर्स सुमित मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
227.	183429	मैसर्स स्पार्कल फॉसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	256.	203981	मैसर्स टी एण्ड टी अडव्हाजरी सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
228.	173835	मैसर्स क्रियेटिव्ह ट्रिप्टी होम एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	257.	185684	मैसर्स आयाकालिस दाता सिस्टिम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
229.	156704	मैसर्स फाइल्सड माइन्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	202607	मैसर्स कोको झरनीस प्राईवेट लिमिटेड
230.	064269	मैसर्स दिपल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	259.	165186	मैसर्स मनस्क्रिल सोलुक्शन्स लिमिटेड
231.	129380	मैसर्स अडब्लिक्स सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	260.	081899	मैसर्स कथरल हाऊसिंग डेवेलोपमेंट एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
232.	156628	मैसर्स फाइल्ड ऑनिमेशन प्राईवेट लिमिटेड	261.	175049	मैसर्स एस 3 के गेमिंग प्राईवेट लिमिटेड
233.	219312	मैसर्स जैन कोल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	262.	203855	मैसर्स हॅम्टन पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
234.	173205	मैसर्स मारीयतू हेल्थ सोलुक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	263.	203836	मैसर्स हिरको एनर्जी वेंचरस प्राईवेट लिमिटेड
235.	182496	मैसर्स लरनिंग फॉक्टर इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	264.	203830	मैसर्स विन्डरमेरे एनर्जी वेंचरस प्राईवेट लिमिटेड
236.	155536	मैसर्स क्लॉब टेक्नो सोलुक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	265.	186331	मैसर्स बाबुल रियलटीज प्राईवेट लिमिटेड
237.	217587	मैसर्स सागर मंथन मटेरियल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	266.	183116	मैसर्स मुवेऑन हॉटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	170912	मैसर्स अरिहंत इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	267.	179888	मैसर्स विश्वात्मा रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
239.	194956	मैसर्स आरएमएल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	268.	160416	मैसर्स पंकती प्लॉस्ट प्राईवेट लिमिटेड
240.	183661	मैसर्स मॅजिक लॉनट्रॉन फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	269.	179127	मैसर्स इण्डिया रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	196296	मैसर्स स्टारमेकर अडव्हर्स प्राईवेट लिमिटेड	270.	182908	मैसर्स अंकुर मर्कनडाइजर्स (नागपुर) प्राईवेट लिमिटेड
242.	174419	मैसर्स विनय मर्कनटाईल प्राईवेट लिमिटेड	271.	178726	मैसर्स पॉपस्टार इंटरटेन्मेंट इण्डिया लिमिटेड
243.	197050	मैसर्स इटेलीबिट्स आऊटडोरस प्राईवेट लिमिटेड	272.	182778	मैसर्स के एण्ड एन ऑर्टस प्राईवेट लिमिटेड
244.	176688	मैसर्स हिरेन ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	273.	174615	मैसर्स बी एण्ड एस डायमंड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
245.	057855	मैसर्स न्युमेक्स फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	274.	021843	मैसर्स रोडल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	188922	मैसर्स मालडर मरीन प्राईवेट लिमिटेड	275.	196132	मैसर्स पंचनोवा बेवेरेजस प्राईवेट लिमिटेड
247.	183383	मैसर्स ओम अमूरुतेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हपर्स प्राईवेट लिमिटेड	276.	186390	मैसर्स बाबुल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
248.	206877	मैसर्स ए. हरट्रोडट सोलुक्शन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	277.	013601	मैसर्स वेलडेकोर लॉमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
249.	176870	मैसर्स कुशाल मल्टीट्रेड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	278.	199853	मैसर्स सुरी सिविल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
250.	180482	मैसर्स वासन एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	279.	118225	मैसर्स सिद्धी विनायक कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	200740	मैसर्स जे एस बी फुड्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
280.	187223	मैसर्स विमुरा एडव्हायजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
281.	199854	मैसर्स रेलटेक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
282.	115042	मैसर्स पैकवेल ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
283.	116559	मैसर्स अजक्स कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
284.	204120	मैसर्स विंडसोर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
285.	183879	मैसर्स मॉडर्न इण्डिया टेलिकम्युनिकेशन एण्ड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
286.	203644	मैसर्स ऑसबोर्न फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	182263	मैसर्स कोलकता एक्सिस मॉल लिमिटेड
288.	217610	मैसर्स पॉवर पॉइंट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
289.	176733	मैसर्स सुलोचना मर्केन्टायल कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
290.	045922	मैसर्स मुरबाड पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	202393	मैसर्स सॉफ्टकनेक्ट सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
292.	200115	मैसर्स गासिंग ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
293.	176573	मैसर्स कनिस्का होम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
294.	140768	मैसर्स सरिन पेलाडिन पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
295.	173471	मैसर्स मिक्त्रा टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
296.	182865	मैसर्स बाली स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	184424	मैसर्स उमिया सेल्स एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
298.	184786	मैसर्स इंटेग्रिटी सर्विसेस एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
299.	188129	मैसर्स आईकन्सल टेक बीपीओ प्राईवेट लिमिटेड
300.	081734	मैसर्स लॉगटन इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
301.	179835	मैसर्स प्रतिक्षा रीजडेब क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	193642	मैसर्स क्लियरग्रिप हॉस्पिटैलिटी एण्ड इंटरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
303.	013531	मैसर्स हिमालयन स्टीलपाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	151912	मैसर्स श्रीलैबस फॉर्मा प्राईवेट लिमिटेड
305.	127144	मैसर्स इनोर्मीस हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
306.	188681	मैसर्स रामानंद सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
307.	160101	मैसर्स बीसीबी आईटी रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
308.	130934	मैसर्स कन कंसलटेंसी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
309.	047698	मैसर्स हर्षा कोमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
310.	173183	मैसर्स सीसीसी (आर्कडिया) सबसी लिमिटेड
311.	158867	मैसर्स युवक एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
312.	192056	मैसर्स ब्राइट ज्वेल प्राईवेट लिमिटेड
313.	192297	मैसर्स वेस्ट कोस्ट एण्ड डेव्हलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
314.	214398	मैसर्स श्री एकलिंग रिअल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
315.	179669	मैसर्स पुष्कर लैण्डस्केप प्राईवेट लिमिटेड
316.	051273	मैसर्स विमल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	187335	मैसर्स राक ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
318.	136165	मैसर्स एजी कंटेनर पोर्ट एण्ड टर्मिनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
319.	174985	मैसर्स जीएमटी शेअर्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	180962	मैसर्स बेटर इण्डिया मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
321.	164791	मैसर्स डायगोनल एडव्हाजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
322.	164790	मैसर्स इंटरटेन्मेंट मेट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
323.	167773	मैसर्स सिल्वरस्टेक मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
324.	184084	मैसर्स यतिन इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
325.	187166	मैसर्स ऑस्पी रियलटी डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
326.	164851	मैसर्स रिंगटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
327.	070879	मैसर्स आस्क एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
328.	186036	मैसर्स गीतांजली रिटेल वेन्चर्स लिमिटेड
329.	176916	मैसर्स रायगढ़ जेम्स सेझ लिमिटेड
330.	209817	मैसर्स के. एस. एम. मर्कन्डाईज प्राईवेट लिमिटेड
331.	180727	मैसर्स वेस्ट बंगाल सेझ लिमिटेड
332.	187534	मैसर्स हेल्थी कम्फोर्ट इनोवेशन प्राईवेट लिमिटेड
333.	169644	मैसर्स ऑलिम्पिया डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
334.	037175	मैसर्स फाल्गुन पॉलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
335.	175929	मैसर्स गजानन रियलटी डेवलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
336.	046566	मैसर्स इवेन्टो एपरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	094131	मैसर्स मेकर एलाईस कॉस्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
338.	180124	मैसर्स एन. बी. जेड. आईटी सॉल्यूशन्स लिमिटेड
339.	187600	मैसर्स स्टार ब्रेड कैफे प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
340.	181682	मैसर्स अडेज इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	369.	176854	मैसर्स रोबस्ट लॉजिस्टिक्स एण्ड बेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
341.	036450	मैसर्स क्यासिस पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	370.	209205	मैसर्स बिटवर्क्स सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
342.	182319	मैसर्स फ्लॉवर वैली हॉस्पिटैलीटी प्राईवेट लिमिटेड	371.	185248	मैसर्स मीडस्पेस प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
343.	183532	मैसर्स ऐकसिस मेकानिक्स प्राईवेट लिमिटेड	372.	176378	मैसर्स किनफॉ पॉवर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
344.	164792	मैसर्स साई वलडवाईड एडवाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड	373.	153381	मैसर्स के. रहेजा वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
345.	188549	मैसर्स अवनी रियलटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	374.	120383	मैसर्स कैपीको ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
346.	188277	मैसर्स सी. व्ह्यु इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	375.	077419	मैसर्स पुफुल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
347.	210925	मैसर्स इस्पात इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस प्राईवेट लिमिटेड	376.	175907	मैसर्स क्रिमसन एग्रो एण्ड डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
348.	100680	मैसर्स एस. पी. डायना-फॉग प्राईवेट लिमिटेड	377.	171120	मैसर्स ईटर्नस प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
349.	111949	मैसर्स नेपच्यून पॅनेल्स प्राईवेट लिमिटेड	378.	214397	मैसर्स श्री बहुबली माइनिंग एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
350.	167460	मैसर्स अनंत जयंती डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	379.	170447	मैसर्स एम्पॉवर एचआर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
351.	215612	मैसर्स योग अंबालिका फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	380.	196714	मैसर्स एसीजी कोर्श कम्प्रेशन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
352.	114863	मैसर्स विकरात कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	381.	174861	मैसर्स एसीएस ट्रान्सक्रिप्शन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
353.	124434	मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	382.	175078	मैसर्स एचवाईपीई मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
354.	131306	मैसर्स झेम्स वालकर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	383.	175080	मैसर्स ऑरबीट मल्टीट्रेड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
355.	178991	मैसर्स देहोर्स मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	384.	075562	मैसर्स के. एम. दस्तुर इंशोरेन्स सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
356.	150155	मैसर्स एस. आर. रिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	385.	103826	मैसर्स लविशा अरोमस प्राईवेट लिमिटेड
357.	215724	मैसर्स टिस्या सेंटर फॉर आरोगेनाइजेशनल चेंज प्राईवेट लिमिटेड	386.	078425	मैसर्स हितेश एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
358.	097204	मैसर्स अँटोमिंग प्राईवेट लिमिटेड	387.	124716	मैसर्स मेलबर्न आईवीएफ मुंबई प्राईवेट लिमिटेड
359.	121919	मैसर्स माक्रोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	388.	140250	मैसर्स एसीई कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
360.	125887	मैसर्स ग्रेमॅटर इनोवेसन्स प्राईवेट लिमिटेड	389.	204627	मैसर्स सुरासा टेलीकम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
361.	127026	मैसर्स इंटरनेट पेट्रोकेम नेस्ट कॉम लिमिटेड	390.	170229	मैसर्स ट्रोपोस नेटवर्क्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
362.	036284	मैसर्स डायमंट बोर्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	391.	207146	मैसर्स कोअल रत्नागिरी पॉवर लिमिटेड
363.	038450	मैसर्स बिड फार्मा लिमिटेड	392.	177734	मैसर्स एक्सपन्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
364.	193719	मैसर्स प्रिमत सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	393.	131363	मैसर्स फिनटेक नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
365.	141601	मैसर्स एम. जे. इनफिनीटी कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड	394.	151765	मैसर्स शिवन प्रॉपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
366.	204227	मैसर्स स्पेशप्रेम बिल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	395.	091832	मैसर्स सितार साउंड्स प्राईवेट लिमिटेड
367.	165002	मैसर्स एंबिट मॉल्स प्राईवेट लिमिटेड			
368.	186764	मैसर्स एवर ब्राइट लॉजिस्टिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
396.	176689	मैसर्स प्रजय ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
397.	180476	मैसर्स रिओ शिप मैनेजमेंट एण्ड ऑफशोर सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	080637	मैसर्स एल्कोमैक ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	195119	मैसर्स कैम्पस बुक प्राईवेट लिमिटेड
400.	158392	मैसर्स वर्सेईडाग इन्डटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
401.	131601	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स वेस्ट बंगाल प्राईवेट लिमिटेड
402.	077396	मैसर्स कलोल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
403.	077400	मैसर्स इक्शु प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
404.	166359	मैसर्स कैलिफोर्निया वोव फिटनेस प्राईवेट लिमिटेड
405.	180434	मैसर्स आडो लैण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
406.	180412	मैसर्स डिलोन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
407.	180304	मैसर्स लान्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
408.	161853	मैसर्स उज्ज्वल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
409.	186849	मैसर्स एक्सटेरिअर आर्ट लिमिटेड
410.	181803	मैसर्स एग्रेसिव एन्टरप्राइजेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
411.	190451	मैसर्स गाडीअन एन्टरप्राइजेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
412.	137672	मैसर्स पॉवर ऑटोमेशन सॉल्युशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
413.	168161	मैसर्स रिजनल एयरपोर्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
414.	064325	मैसर्स सॉफ्टेक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
415.	069575	मैसर्स ग्रिनहाउस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
416.	192826	मैसर्स रास रिअल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
417.	195491	मैसर्स इन्वोस्टार सोलर प्राईवेट लिमिटेड
418.	127093	मैसर्स डैडल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
419.	164076	मैसर्स कॉस्मो शेयर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
420.	195401	मैसर्स मिंगल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
421.	077398	मैसर्स प्रतिति इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
422.	208938	मैसर्स मैनेजिंग इमिशन्स ग्रिन पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
423.	062565	मैसर्स वाको इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
424.	188166	मैसर्स इक्विसाइट जिप्सम प्राईवेट लिमिटेड
425.	177363	मैसर्स थिंकिंग कैप्स कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
426.	182794	मैसर्स एमकेजीएस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
427.	203581	मैसर्स प्रेसीजन यूपीविसी एक्सट्रूशन प्राईवेट लिमिटेड
428.	193506	मैसर्स इरोज कार पार्किंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
429.	180541	मैसर्स ट्रस्टकैप सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
430.	138455	मैसर्स आकर्श आरकेड्स प्राईवेट लिमिटेड
431.	121883	मैसर्स मित कंटेनर्स कैरियर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
432.	185876	मैसर्स अन्सा फ्लेक्सिपैक प्राईवेट लिमिटेड

पद्मावती बालकृष्णन
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 10 अगस्त 2012

सं.आर.ओ.सी/पैट/560(5)/एफटीई/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5)*के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	007176	मैसर्स मेट्रो शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	016410	मैसर्स आकर्षण फिल्मस प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3.	018124	मैसर्स हाइटेसिटी मार्केटिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	008657	मैसर्स निषाद कार्गो लिमिटेड
5.	009449	मैसर्स निसाद रोडवेज लिमिटेड
6.	006501	मैसर्स मेरोना सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 14 अगस्त 2012

सं. आर.ओ.सी./560(3)/3010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
1.	009801	मैसर्स उकाजि गरानी मारमो प्राईवेट लिमिटेड
2.	001442	मैसर्स अम्बिका इलेक्ट्रो-फ्यूसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	001912	मैसर्स एस. प्लास्टिक्स एन्टरप्राईसेस लिमिटेड
4.	002528	मैसर्स जिबने सेवा फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
5.	002606	मैसर्स फूड्स प्रोसेसर्स ओडिसा प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR ADUIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 9th August 2012

No. Admn (G&SSA)17-2(AO)/Vol-VII/1383—In pursuance of OOC No. 492 dated 31.07.2012 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2(AO)/Vol-VII/1262 dated 31.07.2012 the following Asstt. Audit Officers on promotion have assumed the charge as Audit Officer (Civil) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates as indicated against each:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Prasanta Kumar Dhal-I	01.08.2012 (FN)
2.	Ratnakar Samal	01.08.2012 (FN)
3.	Rankanath Mallik	01.08.2012 (FN)

S. S. DAS
Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&F), KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th August 2012

No. Admn. V/9-86/VI—The Principal Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Accounts Officers of this office as Senior Accounts Officers (Group B) in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates noted against each:—

Sl. No.	Name	DOA
	Shri/Smt.	
1.	Rajalakshmi N	02.01.2012 (FN)
2.	Padmadevi K	02.01.2012 (FN)
3.	Geethadevi C	02.01.2012 (FN)
4.	Parvathy V	02.01.2012 (FN)
5.	Geetha R	02.01.2012 (FN)
6.	Jayatheeswary C	02.01.2012 (FN)
7.	Leela P C	02.01.2012 (FN)
8.	Venugopal M G	02.01.2012 (FN)
9.	Elizabeth Mammen	02.01.2012 (FN)

S. VISWANATHAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/VI—The Principal Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Asstt. Accounts Officers of this office as Accounts Officers

(Group B) in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates noted against each:—

Sl. No.	Name	DOA
	Shri/Smt.	
1.	Suseelakumari Amma P	01.04.2011 (FN)
2.	Krishnan C T	04.04.2011 (FN)
3.	Radha K (No. 6)	02.05.2011 (FN)
4.	Manju T V	06.07.2011 (FN)
5.	Sreelatha R	01.07.2011 (FN)
6.	Sasidharan Nair B	19.07.2011 (FN)
7.	Sobha R	01.09.2011 (FN)
8.	Sreeharshon K K	14.09.2011 (FN)
9.	Aravindakshan T	03.10.2011 (FN)
10.	Jayaram B	21.10.2011 (AN)
11.	Santhosh Kumar P S	01.12.2011 (FN)
12.	Baby Rajan	02.01.2012 (FN)
13.	Suresh P D	01.02.2012 (FN)
14.	Chandrakumary A	01.03.2012 (FN)
15.	Lekshmi C	02.04.2012 (FN)
16.	Padmakumari Amma TK	11.06.2012 (FN)
17.	Renuka N	27.04.2012 (FN)
18.	Joseph T K	01.05.2012 (FN)
19.	Rachel Mathai	01.06.2012 (FN)
20.	Rajendran B (No. 2)	04.06.2012 (AN)

S. VISWANATHAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/VI—The Accountant General (A&E) has been pleased to regularise the following Asstt. Accounts Officers of this office holding regular temporary posts as Asstt. Accounts Officer (Group B) in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates noted against each:—

Sl. No.	Name	DOA
1	2	3
	Shri/Smt.	
1.	Sreemal Kumar Raj P R	02.05.2011 (FN)
2.	Rajalekshmi B (No. 2)	01.06.2011 (FN)
3.	Neenatte Vincent	04.07.2011 (FN)
4.	Geethangeli P N	04.07.2011 (FN)
5.	Latha S	04.07.2011 (FN)

1	2	3
6.	Jayaraman V	04.07.2011 (FN)
7.	Varghese P T	19.07.2011 (FN)
8.	Anilkumar S	01.08.2011 (FN)
9.	Muraleedharan V R	01.09.2011 (FN)
10.	Rajan P	03.10.2011 (FN)
11.	Ramachandran A A	03.10.2011 (FN)
12.	Balakrishnan P (No. 1)	01.11.2011 (FN)
13.	Jai Kumar Bhaskaran	01.11.2011 (FN)
14.	Hassan T A	01.12.2011 (FN)
15.	Seasor K Abraham	01.12.2011 (FN)
16.	Yogesh A	02.01.2012 (FN)
17.	Rajesh C	01.02.2012 (FN)
18.	Pramodan K	01.03.2012 (FN)
19.	Prabhakaran V P	29.03.2012 (FN)
20.	Raghu K	01.05.2012 (FN)
21.	Thalaseedharan C (No. 2)	01.05.2012 (FN)
22.	Gerorge K X	01.05.2012 (FN)
23.	Mohandas M	01.06.2012 (FN)
24.	Radha K N	01.06.2012 (FN)
25.	Rajeev P	01.06.2012 (FN)
26.	Xavier M J	11.06.2012 (FN)
27.	Kala N	11.06.2012 (FN)

S. VISWANATHAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

The 17th August 2012

No. O. E./E&C/EIVP/000112—The following officials of
IA&AD retired from service:—

Name	Designation	Date of retirement
Sri M. Ganapathy Iyer	Asstt. Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.07.2012 (AN) (Superannuation)

S. VISWANATHAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(GSSA), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 12th July 2012

No. Admn. I/Prom/8-132/2012-2013/54—Principal
Accountant General (GSSA), Andhra Pradesh, Hyderabad is

pleased to promote the following Audit Officers (Civil) of
this office to the cadre of “Senior Audit Officers (Civil)” in
the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay
Rs. 5,400/- with effect from the dates mention against their
names:—

Sl. No.	Name	Office Order No. and date	Date of Assumption of charge
	S/Shri/Smt./Ms.		
1.	P. Ravi Kumar-I	155/31.01.2012	02.01.2012
2.	K. Jayasree	42/22.06.2012	22.06.2012
3.	D. Rambabu	-do-	22.06.2012
4.	G. Kumara Babu	-do-	25.06.2012
5.	S. B. Vijaya Sekhar	-do-	22.06.2012

The above promotions are ordered without prejudice to
the claims of their seniors, if any, and subject to the result
of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh
High Court/Supreme Court of India/Central Administrative
Tribunal etc.

The Officers should exercise option for fixation of pay
within one month from the date of their promotion in terms
of Govt. of India, O. M. No. F. No. 1/1/2008-IC dated
13.09.2008.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. I/Prom./5-4/F.59/2012-2013/55—Principal
Accountant General is pleased to promote the following
Senior Auditors to officiate as Asstt. Audit Officers (Civil)
in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay
of Rs. 4,800/- with effect from the date mention against their
names:—

Sl. No.	Name	Office Order No. and date	Date of Assumption of charge
1	2	3	4
	S/Shri/Smt.		
1.	K. Uma Sundara Vara Prasad	13/26.04.2012	26.04.2012
2.	A. Sridhar	-do-	-do-
3.	B. V. Santha Rao	-do-	-do-
4.	J. Sudhir Kumar	-do-	-do-
5.	D. Nagaraju	-do-	-do-
6.	V. Sukumar Pillai	-do-	-do-
7.	Md. Abdul Elliyas	-do-	-do-
8.	D. Obaiah	-do-	-do-
9.	J. Rajani	-do-	-do-
10.	Ramakrishna Darla	-do-	-do-
11.	B.V.S.D. Sai Prasad	-do-	-do-

1	2	3	4
12.	D. Prabhu Dayal	13/26.04.2012	26.04.2012
13.	B. Bala Kishan	-do-	-do-
14.	B. Praveen Kumar	-do-	-do-
15.	M. Srinivas	-do-	-do-
16.	R. Sarada Yadav	-do-	-do-
17.	N. Balaji Singh	-do-	27.04.2012
18.	B. Naga Lakshmaiah	-do-	26.04.2012

The officials at Sl. Nos. 1 to 14 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial upgradation, under MACP Scheme, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay Rs. 4,600/-, however, the difference of Grade Pay would be made allowed as per DOPT OM No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2010.

The officials at Sl. Nos. 15 to 18 should exercise option for fixation of pay within one month from the date their taking over charge in terms of Government of India O. M. No. F/7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P.I) dated 08.02.1983 as amended from time to time.

The above promotion is ordered without prejudice to the claims their seniors, if any. They will be on probation for a period of two years.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. I/Prom./5-4/2012-2013/66—The following officials taken on deputation, are absorbed in this office in the Group "B" Gazetted post of "Asstt. Audit Officer (Civil)" with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name	Date of absorption
1	2	3
	S/Shri/Smt./Kum.	
1.	M Koteswara Rao	01.05.2012
2.	G. N. V. Satyanarayana	-do-
3.	R. V. Prasada Rao	-do-
4.	P. Srinivasa Rao	-do-
5.	T. R. Venkateswara Rao	-do-
6.	B. Adhokshaja Rao	-do-
7.	L. S. V. Swamy	-do-
8.	V. Sastish	-do-
9.	N. Pardha Saradhi	-do-
10.	Z. A. Dara	-do-
11.	B. K. M. R. Patnaik	-do-

1	2	3
12.	T. V. Ramesh	01.05.2012
13.	M. Dhananjanyulu	-do-
14.	S. M. Satyavedana	-do-
15.	K. S. Seshadri	-do-
16.	Pamod Kumar Srivastava	02.05.2012
17.	U. K. S. Sreenivasa Murthy	-do-
18.	C. Ramakrishna Prasad	-do-
19.	G. V. Anjaney A Naresh	-do-
20.	V. Sudha	-do-
21.	BH. V. Ramana Murthy	-do-
22.	I. V. Subrahmanyam	-do-
23.	Shaik Shahul Rasheed	-do-
24.	G. Krishna Priya	-do-
25.	N. Srinivas	-do-
26.	CH. Geetanjali	-do-
27.	Y. Navaratna Kumar	-do-

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

The 17th July 2012

No. Admn.-I/Prom./5-4/F-60/2012-2013—The Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) to officiate as Audit Officer (Civil) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
	(S./Shri/Ms.)		
1.	CH. Lakshmi Narasimha Rao	153/31.01.2012	01.02.2012
2.	L. Padmavathi	43/27.06.2012	28.06.2012
3.	M. Vijay Anand	43/27.06.2012	28.06.2012
4.	S. Krishna Mohan Rao	43/27.06.2012	27.06.2012
5.	M. S. Kumara Devan	43/27.06.2012	29.06.2012

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh

High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The officers at Sl. Nos. 01, 02 & 04 are not eligible for further fixation of pay as they were already allowed financial upgradation, under MACP Scheme, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- as per DoPT OM No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2010.

The officers at Sl. Nos. 03 & 05 should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

The 20th July 2012

No. Admn.-1/Prom./8-132/F-59/2012-2013/67—Principal Accountant General (GSSA), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Sr. AOs with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Ch. Sarabondu Raju	31.05.2012
2.	N. Madhusudhana	30.06.2012
3.	N. Macharla	30.06.2012
4.	Meriga Sastry	30.06.2012
5.	G. Kiran Kumari	30.06.2012

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Administration)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 14th August 2012

No. 10327/Sp/A-32013/3-Chemist(Sr.)/2005/19B Voll.-II—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Chemists on promotion to the post of Senior Chemist in the same Department and on pay according to rules in the Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Senior Chemist
1	2	3
1.	Shri J. B. Ghosh	30.05.2011 (FN)
2.	Shri S. K. Misra	23.06.2011 (AN)

1	2	3
3.	Shri S. N. Girhe	27.06.2011 (FN)
4.	Dr. D. D. Upreti	06.06.2011 (FN)
5.	Dr. (Mrs.) Sarita Singh	25.05.2011 (AN)
6.	Shri Jairaj Gupta	31.05.2011 (FN)
7.	Dr. Dilip Kumar Bandyopadhyay	25.05.2011 (AN)
8.	Dr. R. P. Sharma	01.06.2011 (AN)
9.	Dr. Rafi Ahmad	30.05.2011 (AN)
10.	Shri Om Swarup	25.05.2011 (AN)
11.	Dr. Sanjeev Kumar	29.08.2011 (FN)
12.	Smt. S. N. Janbandhu	15.06.2011 (FN)
13.	Shri U. C. Gautam	13.07.2011 (FN)
14.	Shri Jeevan Lal Meena	08.08.2011 (FN)
15.	Shri O. P. Meena	04.08.2011 (FN)
16.	Shri B. D. Lal	25.04.2012 (AN)
17.	Smt. Chandrima Ray	25.04.2012 (FN)
18.	Dr. Pradeep Trivedi	25.04.2012 (FN)

M. C. SAHA
Asstt. Chemist Gr.-I and
Nodal Officer, Chemistry Stream
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 9th August 2012

No. 93/Noti./Est.-IA/6812—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ashok Bhowmick	SO/G	31.07.2012 (AN)	Resignation
2.	Dr. (Smt.) Sudha Premachandran	SO/D	31.07.2012 (AN)	Superannuation
3.	Shri Dharendra Mohan	SO/G	31.07.2012 (AN)	Superannuation
4.	Dr. C. G. Sivan Pillai	SO/H	31.07.2012 (AN)	Superannuation
5.	Shri Mukund Sakharan Belhe	SO/F	31.07.2012 (AN)	Superannuation
6.	Dr. (Smt.) Neera Chadha (PT)	SO/E	31.07.2012 (AN)	Superannuation

1	2	3	4	5
7.	Smt. Padmavati B. Patil	SO/D	31.07.2012 (AN)	Superannuation
8.	Shri Ulhas Shankar Kolte	SO/H	31.07.2012 (AN)	Superannuation
9.	Shri Vinaya Kumar	OS	31.07.2012 (AN)	Retirement After Extn. of Service
10.	Shri P. K. Nema	OS	31.07.2012 (AN)	Retirement After Extn. of Service

S. G MARKANDEYA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400094, the 9th August 2012

No. DPS/07020/Rectt./12209—The President is pleased to appoint Shri R. Vijay Kumar Assistant Stores Officer [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-], Stores Unit, AMDER, Hyderabad, as Stores Officer in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Stores Unit, HWP, Manuguru, w.e.f. the forenoon of 25th July, 2012, until further orders.

CATHERINE RAJ
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 13th August 2012

No. RoC/Delhi/560(5)/FTE-2011/19280—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	220491	M/s. Alef Systems Integration Private Limited
2.	073988	M/s. Al-Falah Exports Limited
3.	065675	M/s. Alpine Leather Private Limited
4.	128853	M/s. Amjay Infotech Private Limited
5.	032524	M/s. Amrit Overseas Private Limited
6.	163971	M/s. AMS Acoustics Private Limited
7.	038338	M/s. AYN & Jagdberg Accessories India Private Limited

1	2	3
8.	169278	M/s. Azorim Delhi Consulting Company Private Limited
9.	129699	M/s. B. J. Buildwell Private Limited
10.	148900	M/s. Bostech Drilling (India) Private Limited
11.	198251	M/s. Brain Power Solutions Private Limited
12.	164280	M/s. C. R. Foils Private Limited
13.	210726	M/s. CA Delta Immigration Consultant Private Limited
14.	237160	M/s. Center For Stroke and Cerebral Palsy Private Limited
15.	217138	M/s. City Privilege Cards Private Limited
16.	189206	M/s. Digvijay Agro Seeds Private Limited
17.	175312	M/s. Dominique Leroy Designs Private Limited
18.	224783	M/s. DSS Infratech Private Limited
19.	147656	M/s. Esspee Resources and Management Consultants Private Limited
20.	012682	M/s. Fateh Printing Press Private Limited
21.	184198	M/s. Garhwal Security Services Private Limited
22.	072552	M/s. Gayatri Conveyors Private Limited
23.	138078	M/s. GS Business Solutions Private Limited
24.	112068	M/s. HKB Variations Solutions Private Limited
25.	203329	M/s. Ingenuous Consulting Private Limited
26.	166339	M/s. INT Infosystems (India) Private Limited
27.	037042	M/s. Inventec Appliances (India) Company Private Limited
28.	176926	M/s. Jayaz Hotels Private Limited
29.	145133	M/s. JCL Logistics Private Limited
30.	187901	M/s. Knowol Hydro Projects Private Limited
31.	166361	M/s. Knowol IT Solutions Private Limited
32.	127229	M/s. Kohinoor Human Resources Services Private Limited
33.	200134	M/s. Kshatriyas 4 Securities Private Limited
34.	113556	M/s. M2M Chip Private Limited

1	2	3
35.	041299	M/s. Macro-Vision Consultants Private Limited
36.	230755	M/s. Marsh & Jacob Meters Private Limited
37.	223561	M/s. Narayan Sharanam Resorts Private Limited
38.	005933	M/s. New Dimensions Private Limited
39.	149142	M/s. Newage Propbuild Private Limited
40.	066037	M/s. Nirvighna Estates Private Limited
41.	040343	M/s. Nodm Marketing Private Limited
42.	042761	M/s. Omega International Private Limited
43.	181348	M/s. Optimus Exim Private Limited
44.	087059	M/s. Philip Morris India Private Limited
45.	105840	M/s. Prakriti Vatika Private Limited
46.	041420	M/s. Prime Style Private Limited
47.	099569	M/s. R. D. Sharma and Associates Private Limited
48.	181212	M/s. RC Infrastructure Private Limited
49.	179665	M/s. S. Sahayak H. R. Solutions Private Limited
50.	097734	M/s. Saatvika Marketing Private Limited
51.	140546	M/s. Sacred World Media Private Limited
52.	184087	M/s. Sai Bakers Private Limited
53.	061741	M/s. Satya Prakash Agro Private Limited
54.	211478	M/s. Satyapal Shivkumar Industry Private Limited
55.	178214	M/s. SB Infosoft Rajpura Private Limited
56.	205142	M/s. SBG Builders Private Limited
57.	192985	M/s. Select Organic Private Limited
58.	170096	M/s. Servia Services India Private Limited
59.	100008	M/s. Shobhit Overseas Private Limited
60.	127274	M/s. SM Infotel Private Limited
61.	042207	M/s. SP Interiors Private Limited
62.	035274	M/s. Sud Security and Allied Services Private Limited
63.	150759	M/s. Tangerine Communications Private Limited
64.	035589	M/s. Top Sanifixer Private Limited
65.	019176	M/s. Trans Asian Chemicals Private Limited
66.	044371	M/s. Ultimate Telesystems Private Limited
67.	188734	M/s. Vasant Networks Private Limited

1	2	3
68.	184979	M/s. Vatikafresh Agro Private Limited
69.	170566	M/s. Venus Data Labs Private Limited
70.	164422	M/s. Virtual Animation Academy Private Limited
71.	186834	M/s. Yulan Clothing Private Limited

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 16th August 2012

No. TS/SM/560(3)/176—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	29917	M/s. Glen Hotels and Resorts Private Limited
2.	30999	M/s. Kusha Foods Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Himachal Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Mumbai-400002, the 17th August 2012

No. RoC/FTE-2011/560(5)/882—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	183758	M/s. Hiranandani Entertainment Chennai Sez Co. Developer Private Limited
2.	163664	M/s. Krohm Solutions Private Limited

1	2	3	1	2	3
3.	186153	M/s. Lodha Farmtech and Builders Private Limited	34.	175540	M/s. Quality Human Resources Private Limited
4.	167713	M/s. Silkroute Infotech Private Limited	35.	178292	M/s. Portalsplus Solutions Private Limited
5.	167632	M/s. Hi-Touch Developers India Private Limited	36.	053753	M/s. Bach Investments Private Limited
6.	114620	M/s. India Leisure Talkies Private Limited	37.	179234	M/s. Skygen Properties Private Limited
7.	184146	M/s. Royal Checkin Services Private Limited	38.	185162	M/s. Pauna Realty Private Limited
8.	165634	M/s. Corpfin Services (India) Private Limited	39.	185947	M/s. Sankhya Capital Advisors Private Limited
9.	189841	M/s. CS Kailas Legal Services Private Limited	40.	173319	M/s. Cuisine Retail India Private Limited
10.	163464	M/s. TAC Gear Private Limited	41.	042907	M/s. Ess Pee Holdings Private Limited
11.	180976	M/s. Aargon Infraprojects Private Limited	42.	185180	M/s. Venus Rasayan Private Limited
12.	187894	M/s. Flair Hospitality Private Limited	43.	157957	M/s. Bullkeats Advisory Services Private Limited
13.	155911	M/s. Parshwa Realty Private Limited	44.	064263	M/s. Indo Color Photo Products Limited
14.	181535	M/s. PNC Sippy Media Limited	45.	187400	M/s. Vyapar Textiles Limited
15.	126484	M/s. Cyber Sahibs Com Limited	46.	190871	M/s. Saagarika Trading Company Private Limited
16.	168269	M/s. Saldeep Hotel and Apartments Private Limited	47.	161218	M/s. Samriddhi Stock Brokers Private Limited
17.	138932	M/s. Tropicana Sales (India) Private Limited	48.	181105	M/s. N. R. Recycling Co. Private Limited
18.	205129	M/s. Kasni Trading Company Private Limited	49.	029799	M/s. D. K. Roller Flour Mills Private Limited
19.	177550	M/s. Pitambara Translinks Private Limited	50.	159222	M/s. C. D. Realtors Private Limited
20.	187101	M/s. Sangam Agro Acres Private Limited	51.	176228	M/s. PPP Telesolutions Private Limited
21.	189033	M/s. Blue Whale Network Private Limited	52.	185467	M/s. K-Dow Petrochemicals Private Limited
22.	127778	M/s. Tiko Ventures Private Limited	53.	125746	M/s. Wizcraft Infinity World Private Limited
23.	103691	M/s. Taj Teak Private Limited	54.	189661	M/s. Climatic Property Private Limited
24.	111814	M/s. Avnar Traders Private Limited	55.	187964	M/s. M & M Thermoformers Private Limited
25.	172683	M/s. Deesan Garments Private Limited	56.	199108	M/s. KKTC Mining & Construction Equipments Private Limited
26.	200836	M/s. Janus Capital Management Private Limited	57.	116276	M/s. Orasoft Consultants (India) Private Limited
27.	176268	M/s. Deesan Textile Private Limited	58.	165775	M/s. Namur Properties Private Limited
28.	183282	M/s. Urban India Realtors Private Limited	59.	160548	M/s. Shantinath Shelters Private Limited
29.	147352	M/s. Magic 'M' Diamonds Private Limited	60.	197787	M/s. Brillare Watch Private Limited
30.	174622	M/s. Zeon Teleservices Private Limited	61.	159858	M/s. Halurkar Constructions Private Limited
31.	198133	M/s. Fortune Landscapes Private Limited	62.	205103	M/s. Aastha Gem & Jewellery Private Limited
32.	180886	M/s. SP-Kap Aviation (India) Private Limited			
33.	183640	M/s. Karanja Port Private Limited			

1	2	3	1	2	3
63.	184187	M/s. Core Power Limited	92.	032330	M/s. Kayel Iron and Steel Private Limited
64.	197958	M/s. Beautiful Minds Realty Private Limited	93.	182548	M/s. Land Tech Infra Private Limited
65.	172403	M/s. Rising Elevator (Mumbai) Private Limited	94.	182255	M/s. Ifind Web Services Private Limited
66.	186555	M/s. Syys Care Private Limited	95.	161868	M/s. Isotope Properties Private Limited
67.	179399	M/s. RD Checkship Private Limited	96.	122727	M/s. Wadhvani Gitaprakash Coldstorage Private Limited
68.	182615	M/s. Darak Realty Private Limited	97.	187614	M/s. Perfect Bio-Nutraceuticals Private Limited
69.	160337	M/s. Genome Biopharma Private Limited	98.	077393	M/s. Bodhini Investments Private Limited
70.	182092	M/s. Kredit Infracon Private Limited	99.	209356	M/s. Pulastya Developers Private Limited
71.	201345	M/s. NPFP Academy Private Limited	100.	038240	M/s. Adwyn Enterprise Private Limited
72.	154368	M/s. Maa Financial Solutions Private Limited	101.	172284	M/s. Boutique & Vintage Two Wheelers Private Limited
73.	184481	M/s. Ambience Software Private Limited	102.	193599	M/s. Matrix Knowledge Private Limited
74.	172181	M/s. Corpfin Advisory Services Private Limited	103.	140811	M/s. S. Nagda Textiles Private Limited
75.	161742	M/s. S. R. Fire Protection & Technical Services Private Limited	104.	053565	M/s. Sukruti Advisors Private Limited
76.	101941	M/s. Premji Haridas and Company Exports Private Limited	105.	128047	M/s. West-Side Hotels Private Limited
77.	033285	M/s. Macro Real Estates Private Limited	106.	184626	M/s. Sagacious Realtors Private Limited
78.	095625	M/s. Pioneer Portfolio Services Private Limited	107.	187283	M/s. Omraj Rajhans Builders and Developers Private Limited
79.	163326	M/s. Pratik Textile Park Private Limited	108.	141633	M/s. Sagar Oceanic Services Private Limited
80.	139412	M/s. Inderjit Films Private Limited	109.	188130	M/s. Iconsul Tech Studio Private Limited
81.	177223	M/s. Iggiphone India Private Limited	110.	148418	M/s. Swamini Autoparts Private Limited
82.	190597	M/s. Vendici Information Technology Solutions Private Limited	111.	150581	M/s. Pakaale Tobacco Private Limited
83.	124150	M/s. Turrang Construction Private Limited	112.	132992	M/s. Myriad Advertising Media (India) Private Limited
84.	196363	M/s. Arete Gems Private Limited	113.	178869	M/s. Red Lion Designs Private Limited
85.	184360	M/s. Proteus Media Aggregator Private Limited	114.	127765	M/s. Antrix Apparels Private Limited
86.	131914	M/s. Gold Rock Insurance Distributors Private Limited	115.	186082	M/s. Missionbits Information Technologies Private Limited
87.	104962	M/s. Micro Realities Private Limited	116.	160418	M/s. National Travel Service Private Limited
88.	172377	M/s. Nenava Impexx Private Limited	117.	184353	M/s. Cim Ash Private Limited
89.	169796	M/s. Deesan Civil Engineering Private Limited	118.	168216	M/s. Mikantra Securities Private Limited
90.	203780	M/s. Bluebrick Wealth Management Private Limited	119.	169470	M/s. Global Development Capital Management Advisers Private Limited
91.	204746	M/s. Cetco Environmental Technologies Private Limited	120.	207816	M/s. Matrix Infrabulls Private Limited
			121.	175708	M/s. Danos Minerals Private Limited
			122.	187456	M/s. Reenaj Exports Private Limited

1	2	3
123.	171374	M/s. Shree Girivar Financial Services Private Limited
124.	104024	M/s. Netran Information Access Private Limited
125.	175121	M/s. Ameya Capital Management Private Limited
126.	186775	M/s. Nirman Comfort Private Limited
127.	176795	M/s. Starshop Multitrade Private Limited
128.	088828	M/s. Shree Dev Ashish Ispat Private Limited
129.	176266	M/s. DR Faerber and Schwarz Acoustics Private Limited
130.	180689	M/s. Sunnight Solar Private Limited
131.	185976	M/s. SHD Management Consultancy Private Limited
132.	170241	M/s. Gems Realty Private Limited
133.	053717	M/s. Rishi Granites Private Limited
134.	200414	M/s. Ayan Media Private Limited
135.	194677	M/s. Namrata Industrial Parks Private Limited
136.	204046	M/s. Jagjivan Keshavji Trading Company Private Limited
137.	132402	M/s. Simtresh Marketing Private Limited
138.	182785	M/s. Real Estate Marketing & Management Agency Private Limited
139.	185434	M/s. AR Dall (India) Private Limited
140.	208612	M/s. Sapien Multi Trade Private Limited
141.	172614	M/s. Abha Food India Private Limited
142.	190058	M/s. Mission Green Ethanol Private Limited
143.	188124	M/s. All Apparels Private Limited
144.	156319	M/s. Kanishka Gems and Jewellery Private Limited
145.	174101	M/s. Plasticizer & Polymer Products Private Limited
146.	171022	M/s. Brightlights Support Services India Private Limited
147.	182343	M/s. Sohum Wellness Retreat & Resorts Limited
148.	152882	M/s. Bombay Oxygen Acetylene Limited
149.	202403	M/s. Geo-Accord Industries Private Limited

1	2	3
150.	114340	M/s. Apollo Logistic Management Private Limited
151.	211898	M/s. Shrees Offshore Fabricators & Consultants (I) Private Limited
152.	203828	M/s. Highdale Power Private Limited
153.	071537	M/s. Sunmark Pharmaceuticals Private Limited
154.	199735	M/s. Trendz Logistics Private Limited
155.	154539	M/s. Arren Realty Private Limited
156.	203915	M/s. Belchamp Energy Ventures Private Limited
157.	205989	M/s. Vee Corp Realty Private Limited
158.	208921	M/s. Fervid Agro Trade Private Limited
159.	208718	M/s. Ardor Nuts Private Limited
160.	122551	M/s. One-Up Information Technology Private Limited
161.	045183	M/s. Carona Exim Limited
162.	041205	M/s. Sankalp Advertising Network Private Limited
163.	175678	M/s. Dhanera Trading Co. Private Limited
164.	213773	M/s. KVJ Hotels and Restaurants Private Limited
165.	199592	M/s. Sentry Assets Management Services Private Limited
166.	202776	M/s. PJS Contract Services Private Limited
167.	183830	M/s. Modern India Infrastructure Private Limited
168.	173906	M/s. Simprag Training and Consulting Private Limited
169.	172348	M/s. Arya Automotive Private Limited
170.	067225	M/s. Indian Media Protection Against Copyright Theft Limited
171.	180486	M/s. Modern India Electricity Company Private Limited
172.	041051	M/s. Simi Estates Private Limited
173.	166676	M/s. Lodha Buildwell Private Limited
174.	167781	M/s. Transformer India Management Private Limited
175.	218855	M/s. Index Admatrix Private Limited
176.	197594	M/s. Mmaxx Dredging Private Limited
177.	045141	M/s. Butti Consultants Private Limited
178.	152844	M/s. Bombay Oxygen Gases Limited

1	2	3	1	2	3
179.	187965	M/s. KBJ Royal Construction Private Limited	209.	137306	M/s. Anupam Logistics Private Limited
180.	202318	M/s. Powertrack Trade Links Private Limited	210.	045361	M/s. PNH Alloys Private Limited
181.	164929	M/s. UBC Bearings India Private Limited	211.	156384	M/s. Show M Content Ventures India Private Limited
182.	147153	M/s. Savvy Frieght Forwarding Company Private Limited	212.	169991	M/s. Museum Hotels Private Limited
183.	177412	M/s. Red Earth Creations Private Limited	213.	188132	M/s. Iconsult Technologies Private Limited
184.	203643	M/s. Belvoin Power Private Limited	214.	112963	M/s. Karishma Adhesives Private Limited
185.	203757	M/s. Devon Energy Ventures Private Limited	215.	174915	M/s. Palacio De Flamenco Food and Beverages Private Limited
186.	203742	M/s. Palace Gardens Energy and Power Private Limited	216.	180550	M/s. Anmsoft IT Park Private Limited
187.	101732	M/s. Prashant Warehousing Private Limited	217.	145525	M/s. Nhava Sheva Software and Logistics Private Limited
188.	165164	M/s. Rungta Dealers Private Limited	218.	030608	M/s. Bhavya Garments Private Limited
189.	062897	M/s. Pramukh Credit and Capital Services Private Limited	219.	203049	M/s. Varun Global Agriculture Private Limited
190.	203761	M/s. Wilton Power Private Limited	220.	126132	M/s. Thinkhr Interactive Private Limited
191.	192504	M/s. Varun Earthtech Limited	221.	138930	M/s. Planet Green Estate and Landscape Developers (Mumbai) Private Limited
192.	171641	M/s. Meso Realities Private Limited	222.	157756	M/s. Maverick Thinking and Communications Private Limited
193.	059637	M/s. Digital Records Private Limited	223.	150840	M/s. Sairam Software Solutions Private Limited
194.	087819	M/s. Rhea Farming Limited	224.	177732	M/s. Fanatic Securities Private Limited
195.	208482	M/s. Cogent Nuts Private Limited	225.	212751	M/s. S. K. Analog Tele Services Private Limited
196.	130322	M/s. Myriad Solutions Private Limited	226.	187608	M/s. Affable Electricals Private Limited
197.	072581	M/s. Wellversed Finance and Trading Private Limited	227.	183429	M/s. Sparkle Facility Management Services Private Limited
198.	163923	M/s. Western India Institute of Medical Sciences Private Limited	228.	173835	M/s. Creative Drishti Home Entertainment Private Limited
199.	166013	M/s. King's Health Spa Private Limited	229.	156704	M/s. Filed Mines Private Limited
200.	148092	M/s. Gleenet Infosolutions Private Limited	230.	064269	M/s. Deepal Agencies Private Limited
201.	188103	M/s. Greatship Dof Subsea Projects Private Limited	231.	129380	M/s. Aublix Software Private Limited
202.	049493	M/s. Soni Parlour Private Limited	232.	156628	M/s. Field Animation Private Limited
203.	192557	M/s. Credence Equities Private Limited	233.	219312	M/s. Jain Coal Services Private Limited
204.	107762	M/s. Prachi Tradvest Private Limited	234.	173205	M/s. Mariatu Health Solutions Private Limited
205.	131420	M/s. RS Softech (India) Private Limited	235.	182496	M/s. Learning Factor International Private Limited
206.	033127	M/s. Shri Vallabh Traders Private Limited	236.	155536	M/s. Klab Techno Solutions Private Limited
207.	169841	M/s. Krish Agro Infra Private Limited	237.	217587	M/s. Sagar Manthan Material Management Private Limited
208.	139762	M/s. Vidhi Impex (Mumbai) Private Limited			

1	2	3	1	2	3
238.	170912	M/s. Arihant Entertainment Private Limited	271.	178726	M/s. Popstar Entertainment India Limited
239.	194956	M/s. RML Services Limited	272.	182778	M/s. K & N Arts Private Limited
240.	183661	M/s. Magic Lantern Films Private Limited	273.	174615	M/s. B & S Diamonds (India) Private Limited
241.	196296	M/s. Starmaker Advisors Private Limited	274.	021843	M/s. Rodal Investments Private Limited
242.	174419	M/s. Vinay Mercantile Private Limited	275.	196132	M/s. Panchnova Beverages Private Limited
243.	197050	M/s. Intellibeasts Outdoors Private Limited	276.	186390	M/s. Babul Trading Private Limited
244.	176688	M/s. Hiren Trading Company Private Limited	277.	013601	M/s. Weldekor Laminates Private Limited
245.	057855	M/s. Newmarkes Fabrics Private Limited	278.	199853	M/s. Suri Civil Works Private Limited
246.	188922	M/s. Maldar Marine Private Limited	279.	118225	M/s. Siddhi Vinayak Coatings Private Limited
247.	183383	M/s. Om Amrutesh Builders and Developers Private Limited	280.	187223	M/s. Vimura Advisory Services Private Limited
248.	206877	M/s. A. Hartrodt Solutions (India) Private Limited	281.	199854	M/s. Rail Tech Services Private Limited
249.	176870	M/s. Kushal Multitrade Company Private Limited	282.	115042	M/s. Packwell Automation Private Limited
250.	180482	M/s. Wasan Energy Private Limited	283.	116559	M/s. Ajax Communications Private Limited
251.	200740	M/s. JSB Foods Private Limited	284.	204120	M/s. Windsor Power Private Limited
252.	175072	M/s. Sohan Infrastructure Private Limited	285.	183879	M/s. Modern India Telecommunications & Technologies Private Limited
253.	176871	M/s. Subodh Mercantile Private Limited	286.	203644	M/s. Osborne Farms Private Limited
254.	206195	M/s. Core Solar Systems Limited	287.	182263	M/s. Kolkata Axis Mall Limited
255.	176710	M/s. Sumit Multitrade Private Limited	288.	217610	M/s. Power Point Management Private Limited
256.	203981	M/s. T&T Advisory Services India Private Limited	289.	176733	M/s. Sulochana Mercantile Company Private Limited
257.	185684	M/s. Icalis Date Systems India Private Limited	290.	046922	M/s. Murbad Packagings Private Limited
258.	202607	M/s. Koko Journeys Private Limited	291.	202393	M/s. Softconnect Solutions (India) Private Limited
259.	165186	M/s. Manskill Solutions Limited	292.	200115	M/s. Gasing Trading Private Limited
260.	081899	M/s. Kathral Housing Development and Finance Private Limited	293.	176573	M/s. Kanishka Homes India Private Limited
261.	175049	M/s. Ess3kay Gaming Private Limited	294.	140768	M/s. Sarin Paladin Paints Private Limited
262.	203855	M/s. Hampton Power Private Limited	295.	173471	M/s. Mikantra Technologies Private Limited
263.	203836	M/s. Hirco Energy Ventures Private Limited	296.	182865	M/s. Bali Steels Private Limited
264.	203830	M/s. Windermere Energy Ventures Private Limited	297.	184424	M/s. Umiya Sales Agency Private Limited
265.	186331	M/s. Babul Realities Private Limited	298.	184786	M/s. Integrity Services & Consultancy Private Limited
266.	183116	M/s. Moveon Hotels Private Limited	299.	188129	M/s. Iconsul Tech BPO Private Limited
267.	179888	M/s. Vishwatma Real Estate Private Limited	300.	081734	M/s. Loughton Investment Company Private Limited
268.	160416	M/s. Pankti Plast Private Limited	301.	179835	M/s. Pratiksha Reegdeb Creations Private Limited
269.	179127	M/s. India Real Estates Private Limited			
270.	182909	M/s. Ankur Merchandisers (Nagpur) Private Limited			

1	2	3
302.	193642	M/s. Cleargrip Hospitality and Entertainment Private Limited
303.	013531	M/s. Himalayan Steelpipes Private Limited
304.	151912	M/s. Shreelabs Pharma Private Limited
305.	127144	M/s. Enormis Health Care Private Limited
306.	188681	M/s. Ramanand Sales Private Limited
307.	160101	M/s. BCB IT Resources Private Limited
308.	130934	M/s. Kan Consultancy Solutions Private Limited
309.	047698	M/s. Harsha Commercial Private Limited
310.	173183	M/s. CCC (Arcadia) Subsea Limited
311.	158867	M/s. Yuvak Apparels Private Limited
312.	192056	M/s. Bright Jewel Private Limited
313.	192297	M/s. West Coast Sand Development Private Limited
314.	214398	M/s. Shree Ekaling Real Estate Private Limited
315.	179669	M/s. Pushkar Landscape Private Limited
316.	051273	M/s. Vimal Impex Private Limited
317.	187335	M/s. Rak Jewellery Private Limited
318.	136165	M/s. AG Container Port and Terminal Services Private Limited
319.	174985	M/s. GMT Shares Private Limited
320.	180962	M/s. Better India Media Private Limited
321.	164791	M/s. Diagonal Advisory Services Private Limited
322.	164790	M/s. Entertainment Matrix Private Limited
323.	167773	M/s. Silverstreak Management Services Private Limited
324.	184084	M/s. Yatin Enterprises Private Limited
325.	187166	M/s. Aspee Realty Developers Private Limited
326.	164851	M/s. Ringtel Communications Limited
327.	070879	M/s. ASK Eximp Private Limited
328.	186036	M/s. Gitanjali Retail Ventures Limited
329.	176916	M/s. Raigad Gems Sez Limited
330.	209817	M/s. KSM Merchandise Private Limited
331.	180727	M/s. West Bengal Sez Limited
332.	187534	M/s. Healthy Comfort Innovation Private Limited

1	2	3
333.	169644	M/s. Olympia Distributors Private Limited
334.	037175	M/s. Falgun Polymers Private Limited
335.	175929	M/s. Gajanan Realty Developers Private Limited
336.	046566	M/s. Evento Apparels Private Limited
337.	094131	M/s. Maker Alloys Castings Private Limited
338.	180124	M/s. NBZ IT Solutions Limited
339.	187600	M/s. Star Bread Cafe Private Limited
340.	181682	M/s. Andes Engineering Services Private Limited
341.	036450	M/s. Oasis Packaging Private Limited
342.	182319	M/s. Flower Valley Hospitality Private Limited
343.	183532	M/s. Accsys Mechanics Private Limited
344.	164792	M/s. Sai Worldwide Advisors Private Limited
345.	188549	M/s. Avani Realty Services Private Limited
346.	188277	M/s. Sea View Estates Private Limited
347.	210925	M/s. Ispat Institute of Business Excellence Private Limited
348.	100680	M/s. Aspee Dyna-Fog Private Limited
349.	111949	M/s. Neptune Panels Private Limited
350.	167460	M/s. Ananth Jayanthi Developers Private Limited
351.	215612	M/s. Yog Ambalika Fertilizers Private Limited
352.	114863	M/s. Vikrat Construction Private Limited
353.	124434	M/s. Reliance Infocomm Security Services Private Limited
354.	131306	M/s. James Walker India Private Limited
355.	178991	M/s. Dehors Media Private Limited
356.	150155	M/s. S. R. Realities Private Limited
357.	215724	M/s. Tisya Center for Organizational Change Private Limited
358.	097204	M/s. Automig Private Limited
359.	121919	M/s. Microsis Institute of Information Technology Private Limited
360.	125887	M/s. Greymatter Innovations Private Limited

1	2	3	1	2	3
361.	127026	M/s. Internet Petrochem Next Com Limited	387.	124716	M/s. Melbourne IVF Mumbai Private Limited
362.	036284	M/s. Diamant Boart India Private Limited	388.	140250	M/s. Ace Cargo Private Limited
363.	038450	M/s. Bid Pharma Limited	389.	204627	M/s. Surasa Telecommunications Private Limited
364.	193719	M/s. Pritam Software Solutions Private Limited	390.	170229	M/s. Tropos Networks India Private Limited
365.	141601	M/s. MJ Infinity Computech Private Limited	391.	207146	M/s. Core Ratnagiri Power Limited
366.	204227	M/s. Spaceframe Buildings Private Limited	392.	177734	M/s. Expanse Properties Private Limited
367.	165002	M/s. Ambit Malls Private Limited	393.	131363	M/s. Fintech Network Private Limited
368.	186764	M/s. Ever Brite Logistics (India) Private Limited	394.	151765	M/s. Shivan Properties and Trading Private Limited
369.	176854	M/s. Robust Logistics and Warehousing Private Limited	395.	091832	M/s. Sitar Sounds Private Limited
370.	209205	M/s. Bitworks Solutions Private Limited	396.	176689	M/s. Prajay Trading Company Private Limited
371.	185248	M/s. Mindspace Properties Private Limited	397.	180476	M/s. Rio Ship Management & Offshore Solutions Private Limited
372.	176378	M/s. Krinfra Power Company Private Limited	398.	080637	M/s. Elcomac Tradelinks Private Limited
373.	153381	M/s. K. Raheja Venture Capital Management Private Limited	399.	195119	M/s. Campus Book Private Limited
374.	120383	M/s. Capico Trading Private Limited	400.	158392	M/s. Verseidag Indutex Private Limited
375.	077419	M/s. Puful Finvest Private Limited	401.	131601	M/s. Reliance Communications West Bengal Private Limited
376.	175907	M/s. Crimson Agro & Development Private Limited	402.	077396	M/s. Kallol Builders and Developers Private Limited
377.	171120	M/s. Eternus Properties Private Limited	403.	077400	M/s. Ikshu Properties Private Limited
378.	214397	M/s. Shree Bahubali Mining and Minerals Private Limited	404.	166359	M/s. California Wow Fitness Private Limited
379.	170447	M/s. Empower HR Solutions Private Limited	405.	180434	M/s. Addo Land Projects Private Limited
380.	196714	M/s. ACG Korsch Compression Technologies Private Limited	406.	180412	M/s. Dillon Infra Projects Private Limited
381.	174861	M/s. ACS Transcription Services Private Limited	407.	180304	M/s. Lance Infra Projects Private Limited
382.	175078	M/s. Hype Multitrade Private Limited	408.	161853	M/s. Ujjwal Fertilisers Limited
383.	175080	M/s. Orbit Multitrade Company Private Limited	409.	186849	M/s. Exterior Art Limited
384.	075562	M/s. K. M. Dastur Insurance Surveyors Private Limited	410.	181803	M/s. Aggressive Enterprises (India) Private Limited
385.	103826	M/s. Laveesha Aromas Private Limited	411.	190451	M/s. Guardian Enterprises India Private Limited
386.	078425	M/s. Hitesh Agencies Private Limited	412.	137672	M/s. Power Automation Solutions India Private Limited
			413.	168161	M/s. Regional Airports India Private Limited

1	2	3
414.	064325	M/s. Softech Exports (India) Private Limited
415.	069575	M/s. Greenhouse Investments Private Limited
416.	192826	M/s. Rasss Realtors Private Limited
417.	195491	M/s. Evostar Solar Private Limited
418.	127093	M/s. Dazzle Investments Private Limited
419.	164076	M/s. Kosmo Share Trading Private Limited
420.	195401	M/s. Mingle Chemicals Private Limited
421.	077398	M/s. Pratiti Investments Private Limited
422.	208938	M/s. Managing Emissions Green Power Private Limited
423.	062565	M/s. Wako Impex Private Limited
424.	188166	M/s. Exquisite Gypsum Private Limited
425.	177363	M/s. Thinking Kaps Consultancy Private Limited
426.	182794	M/s. MKGS Trading Company Private Limited
427.	203581	M/s. Precision UPVC Extrusion Private Limited
428.	193506	M/s. Eros Car Parking Systems Private Limited
429.	180541	M/s. Trustcap Securities Private Limited
430.	138455	M/s. Aakarsh Arcades Private Limited
431.	121883	M/s. Mit Containers Carriers (India) Private Limited
432.	185876	M/s. Ansa Flexipack Private Limited

PADMAVATI BALAKRISHNAN
Dy. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 10th August 2012

No. RoC/PAT/560(5)/FTE-2011—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the name of the following Companies have

this day been struck off from the Registrar and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	007176	M/s. Metro Shelterers Private Limited
2.	016410	M/s. Akarshan Films Production Private Limited
3.	018124	M/s. Hitecity Marketing and Developers Private Limited
4.	008657	M/s. Nishad Cargo Limited
5.	009449	M/s. Nishad Roadways Limited
6.	006501	M/s. Merona Savings & Investment Private Limited

O. P. SHARMA
Dy. Registrar of Companies
Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 14th August 2012

No. RoC/Sec. 560(3)/2012/3010—Notice is hereby
given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that at the expiration of three months
from the date hereof the name of the following Companies
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-001442	M/s. Ambika Electro-Fuses Private Limited
2.	15-001912	M/s. ACE Plastics Enterprises Limited
3.	15-002528	M/s. Jiwanseva Finance and Investment Limited
4.	15-002606	M/s. Food Processors Orissa Private Limited
5.	15-009801	M/s. Ukaji Grani Marmo Private Limited

C. K. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Odisha

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012